

1

By E-filing

e	
Thru: BSE Listing Centre	Thru: NEAPS
MUMBAI - 400 001	MUMBAI - 400 051
Dalal Street, Fort,	Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Rotunda Building, P.J. Tower,	Exchange Plaza, 5 <sup>th</sup> Floor,
Department of Corporate Services,	Listing Department
BSE Limited	National Stock Exchange of India Ltd.,
	U U

Sub: Newspaper advertisement pertaining to Unaudited Financial Results for Q1 FY23 ended June 30, 2022

Dear Sirs,

Pursuant to Regulations 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended, we enclose copies of the newspapers advertisement pertaining to the unaudited financial results of the Company for the Q1 FY23 ended June 30, 2022 published in the Business Standard (English & Hindi) on 4<sup>th</sup> August, 2022.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Triveni Engineering & Industries Ltd.,

JN(en

**GEETA BHAĽLA** Group Vice President & Company Secretary M.No.A9475

Encl: As above



#### Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022 (₹ in lakhs, except per share data) 3 Months ended Year ended Particulars 30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Mar-2022 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 136148 111146 469404 Total Income from operations 8868 12389 58046 Net Profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items) 12389 Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items) 8868 57375 Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items) 6645 9230 42406 Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period 6471 9214 42960 after tax) and other comprehensive income (after tax)] Equity share capital 2418 2418 2418 188867 Other equity Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised) (a) Basic (in ₹) 2 75 3.82 17.54 (b) Diluted (in ₹) 2.75 3.82 17.54

Notes:

1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under:

(₹ in lakhs)

	3 Month	Year ended	
Particulars	30-Jun-2022 (Unaudited)	30-Jun-2021 (Unaudited)	31-Mar-2022 (Audited)
Total Income from operations	136043	110783	467744
Profit/(loss) before tax (after exceptional items)	7964	11624	51996
Profit/(loss) after tax (after exceptional items)	5957	8639	38216
Total comprehensive income	5811	8624	38339

2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022 are available on the websites of Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Company (www.trivenigroup.com).

For TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

	Sd/-
Place: Mysuru, Karnataka	Dhruv M. Sawhney
Date: August 3, 2022	Chairman & Managing Director

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida, Uttar Pradesh - 201 305. Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, Uttar Pradesh - 201 301. www.trivenigroup.com | CIN : L15421UP1932PLC022174

ANRHEA TECHNICAL TEXTILES LTD. CIN: L17110GJ1983PLC006309 CORRIGENDUM In reference to the "Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on 30.06.2022" published on

03.08.2022, The Heading of Third Column is to be read as Year Ended 31.03.2022 instead of 30.06.2021.

SAND



Mon - Fri | 8am

business-standard.com



### Monte Carlo Fashions Limited

(CIN: L51494PB2008PLC032059) Registered/Corporate Office: B-XXIX-106, G.T. Road, Sherpur, Ludhiana-141003, Punjab Tel.: 91-161-5048610-40. Fax: 91-161-5048650.

SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED

Email: info@montecarlo.in, Website: http://www.montecarlocorporate.com

#### Statement of unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2022

	(₹ in lakhs)									
Sr.	Particulars		Stand	dalone			Consolidated			
No.		3 months ended 30.06.2022 (Unaudited)	Preceding 3 months ended 31.03.2022 (Audited)	Corresponding 3 months ended in the previous year 30.06.2021 (Unaudited)	year ended 31.03.2022	3 months ended 30.06.2022 (Unaudited)	Preceding 3 months ended 31.03.2022 (Audited)	Previous year ended 31.03.2022 (Audited)		
$\vdash$	<u> '</u>	, ,	, ,	, ,	, ,	· · · ·	, ,	· · ·		
1	Revenue from operations	11,286.76	16,246.64	4,169.87	90,432.20	11,286.76	16,246.64	90,432.20		
2	Profit/(Loss) for the period (before tax)	(533.74)	1,643.37	(1,284.69)	15,257.50	(533.74)	1,634.01	15,248.14		
3	Profit/(Loss) for the period (after tax)	(391.84)	1,285.30	(1,018.09)	11,403.58	(391.84)	1,275.94	11,394.22		
4	Total comprehensive (loss)/income for the period	(370.31)	993.88	(894.49)	11,436.59	(370.31)	984.52	11,427.23		
5	Paid-up equity share capital (face value of ₹ 10 each)	2,073.21	2,073.21	2,073.21	2,073.21	2,073.21	2,073.21	2,073.21		
6	Other equity	-!	-		66,662.60			66,653.24		
7	Earnings/(loss) per share (face value of ₹ 10 each) (not annualised for the quarters)									
	(a) Basic (in ₹) (b) Diluted (in ₹)	(1.89) (1.89)	6.20 6.20	· · ·	55.00 55.00	(	6.15 6.15	54.96 54.96		

#### Notes:

1. The above consolidated and standalone financial results for the quarter ended 30 June 2022 have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by Board of Directors in their respective meeting held on 03 August 2022. These financial results have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.

- 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly unaudited financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the quarter ended June 30, 2022. The full format of the unaudited quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com & www.bseindia.com) and on company's website (www.montecarlocorporate.com).
- 3. The figures of the previous quarter ended 31 March 2022 as reported in these standalone financial results are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and the published year to date figures upto the third guarter of the previous financial year. Also the figures upto the end of the previous third guarter were only reviewed and not subject to audit.

#### For and on behalf of Board of Directors



Growth. Motivation. Better Life Regd. Office: B - 6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave, New Delhi 110029

🚹 bsindia 🛛 💟 bsindia

Website: www.sandhargroup.com



## **FOSTERING INNOVATION AND GROWTH**

#### EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2022

(₹ in lakhs, except per equity share data)

	. Particulars		Consolidated		Standalone			
SI. No.		Quarter ended		Year ended	Quarter ended		Year ended	
NO.		30 June 2022	30 June 2021	31 March 2022	30 June 2022	30 June 2021	31 March 2022	
		Un-audited	<b>Un-audited</b>	Audited	Un-audited	<b>Un-audited</b>	Audited	
1	Revenue from Operations	67,509.79	41,007.32	2,32,370.23	57,053.23	31,767.40	1,94,101.58	
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional item and share of loss in joint ventures)	2,159.86	495.43	9,526.69	2,165.94	134.73	8,742.03	
3	Net Profit for the period (before tax after exceptional item and share of loss in joint ventures)	1,876.01	176.80	8,144.24	2,165.94	134.73	8,631.67	
4	Net Profit for the period (after tax, exceptional item and share of loss in joint ventures)	1,271.39	211.21	5,592.93	1,579.92	98.93	6,142.68	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	1,233.87	161.55	6,082.78	1,513.96	(2.09)	5,922.25	
6	Equity Share Capital	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	
7	Total Reserves	-	-	79,875.08	-	-	79,975.31	
8	Earnings Per Share (Face value of ₹ 10/- per share) (not annualised for quarter)							
	1. Basic:	2.11	0.35	9.29	2.62	0.16	10.21	
	2. Diluted:	2.11	0.35	9.29	2.62	0.16	10.21	

Note

Place: Gurugram (Haryana)

Dated: 03 August 2022

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30 June 2022 of Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results are available on the websites of the BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and or Company's website at www.sandhargroup.com

> For Sandhar Technologies Limited JAYANT DAVAR **Co-Chairman and Managing Directo**









# राजनीतिक दलों के चुनावी उपहार पर नीति की दरकार

मुफ्त रेवड़ियां बांटने के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिका में उपहार बांटने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध

#### भाविनी मिश्रा

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र को अतार्किक मुफ्त उपहारों के मुद्दे के समाधान के लिए सुझाव देने की खातिर नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय विधि आयोग और भारत निर्वाचन आयोग की राय लेनी चाहिए। अदालत ने देश में मफ्त रेवडियों की संस्कृति के खिलाफ दायर याचिका पर यह पहल की है।

इस याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि चुनावों से पहले सार्वजनिक धन से अतार्किक मुफ्त उपहार बांटने या उनका वादा करने वाले राजनीतिक दलों को मंजूरी नहीं दी जाए और ऐसा करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रह होना चाहिए।

याची को तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि सरकारी खजाने पर 60,000 करोड़ रुपये के कर्ज पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह याची के विचारों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा. 'लोक-लभावन योजनाएं मतदाताओं के फैसलों को प्रभावित करते हैं। इस रास्ते के जरिये हम आर्थिक आपदा की तरफ बढ़ रहे हैं।' उन्होंने सुझाया कि चुनाव आयोग को इस मामले पर विचार के लिए अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। अदालत ने इस सुझाव पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर चनाव आयोग इस मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहता है तो वह उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील ने कहा कि वह अपना जवाब पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त उपहारों के



ऐसे नियमनों को आचार संहिता में शामिल किया जा सकता है।

न्यायालय ने 19 साल पहले के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया है। अदालत ने कहा, 'इससे वंचित लोगों को लाभ मिलते हैं और ऐसा नहीं है कि धनी लोगों को ऐसे लाभों से वंचित किया जाता है।' अदालत ने पाया है कि आचार संहिता के जरिये मुफ्त उपहारों का नियमन करना व्यवहार्य नहीं है। अदालत ने कहा, 'चुनावों से ठीक पहले आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता लाग होने से चार साल पहले का कोई हिसाब नहीं होता है।'

केंद्र से असहमति जताते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और राजनेता कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले से दूर

## याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई

 अदालत ने देश में मुफ्त रेवड़ियों की संस्कृति पर रोक के लिए विभिन्न संस्थानों से सुझाव लेने को कहा

🔳 सरकार की ओर से पेश हुए सोलिसिटर जनरल ने भी किया इसका समर्थन, लेकिन विपक्ष ने इस पर असहमति जताई

सोलिसिटर जनरल ने कहा कि लोक-लुभावन योजनाएं मतदाताओं के फैसलों को प्रभावित करते हैं, इस रास्ते के जरिये हम आर्थिक आपदा की तरफ बढ रहे हैं

रखा जाना चाहिए क्योंकि यह आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा है। सिब्बल ने सुझाव दिया, 'इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए।'

अदालत ने इस चर्चा पर चिंता जताते हए कहा कि इन दिनों हर कोई मुफ्त की चीजें चाहता है। अदालत ने सझाव दिया कि सभी भागीदार मिलकर विचार करें और अपने सुझाव दें। अदालत ने कहा, 'ये राजनीतिक मामले हैं। वित्त आयोग, राजनीतिक दलों, विपक्षी दलों और अन्य भागीदार चर्चा कर अपने सुझाव तैयार करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें।' अँदालत ने सभी दलों को एक संस्था के गठन के बारे में सुझाव देने का निर्देश दिया, जो इस मामले की जांच के लिए अदालत द्वारा गठित की जा सकती है। न्यायालय अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को करेगा।

स्विगी ने अपने कर्मचारियों को दिया तोहफा पीरजादा अबरार बताया, 'हमारा लक्ष्य है कि कर्मचारी बिना किसी बाधा के अपने जनन को आगे बढाएं, इसके लिए खाना डिलिवरी करने वाली कंपनी स्विगी ने अपने कर्मियों के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। पीपल

मुनलाइटिंग नीति शुरू की है। इस नौति के तहत उसके कर्मचारी अब आमदनी बढाने के लिए अन्य काम भी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कंपनी से मंजरी लेनी होगी। यह कार्य वे कार्यालय अवधि के बाद या फिर सप्ताहांत में करेंगे ताकि इससे उनके काम पर असर नहीं पडे और कंपनी के व्यवसाय को लेकर हितों का टकराव नहीं हो। कंपनी के मानव संसाधन प्रमुख गिरीश मेनन ने

फर्स्ट संस्थान बनाने के लिए यह हमारा अगला कदम होगा।'देशभर में जारी लॉकडाउन के दौरान बड़ी आबादी ने नई रुचि अपनाई है जो उनके आय में भी वृद्धि कर रही है। इन गतिविधियों में किसी गैर सरकार संगठन के साथ काम करना, नृत्य प्रशिक्षक बनना या फिर सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएटर आदि बनना है। स्विगी का मानना है कि पूर्णकालिक रोजगार के अलावा इन



गतिविधियों में शामिल होने से व्यक्ति का पेशेवर विकास के साथ-साथ व्यक्तिगत विकास भी होता है। कंपनी की नई नीति में कहा गया है कि कर्मचारी को मुनलाइटिंग परियोजना के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। अगर किसी

परियोजना में स्विगी के साथ हितों का टकराव या फिर कर्मचारी के कार्य पर असर पडने वाला हो इसके लिए स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। यह नीति बंडल टेक्नोलॉजी (मुख्य कंपनी) के सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों जिसमें सहायक, सहयोगी और समह कंपनियों के कर्मियों के लिए होगी। बेंगलूरु की कंपनी में करीब पांच हजार कर्मेचारी हैं। 500 शहरों में दो लाख रेस्तरां इसके पार्टनर हैं। पिछले सप्ताह स्विगी ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए स्थायी रूप से कहीं से भी काम करने की घोषणा की थी।



Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022

(₹ in lakhs, except per share data)							
	3 Month	Year ended					
Particulars		30-Jun-2021 (Unaudited)	31-Mar-2022 (Audited)				
Total Income from operations	136148	111146	469404				
Net Profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	8868	12389	58046				
Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	8868	12389	57375				
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items)		9230	42406				
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	6471	9214	42960				
Equity share capital	2418	2418	2418				
Other equity			188867				
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)							
(a) Basic (in ₹)	2.75	3.82	17.54				
(b) Diluted (in ₹)	2.75	3.82	17.54				

Notes

1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under

	3 Month	Year ended					
Particulars	30-Jun-2022 (Unaudited)	30-Jun-2021 (Unaudited)	31-Mar-2022 (Audited)				
Total Income from operations	136043	110783	467744				
Profit/(loss) before tax (after exceptional items)	7964	11624	51996				
Profit/(loss) after tax (after exceptional items)	5957	8639	38216				
Total comprehensive income	5811	8624	38339				

2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter ended June 30 2022 are available on the websites of Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Company (www.trivenigroup.com)

For TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

Place: Mysuru, Karnataka Date: August 3, 2022

Dhruv M. Sawhney Chairman & Managing Director

(₹ in lakhs)

Sd/

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida, Uttar Pradesh - 201 305. Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, Uttar Pradesh - 201 301 www.trivenigroup.com | CIN : L15421UP1932PLC022174

पीएमएलए पर फैसले की समीक्षा करे उच्चतम न्यायालय: विपक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के

मित्र दलों को छोड़कर पूरे विपक्ष ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय से सँशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों और इस विशेष कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को प्रदत्त अधिकार बरकरार रखने संबंधी अपने हालिया आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस



नहीं है। न्यायमुर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रवि कुमार के पीठ ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा था कि धारा-5 के तहत धनशोधन में संलिप्त लोगों की संपति कुर्क करना संवैधानिक रूप से वैध है। बीएस/भाषा

> SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED | Tel: 0124 - 4518900 CIN: L74999DL1987PLC029553 Regd. Office: B - 6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave, New Delhi 110029

समेत 17 विपक्षी दलों ने पीएमएलए के तहत ईडी को मिले अधिकारों के बारे में न्यायालय के हालिया फैसले लेकर

को निराशा जताते हुए कहा कि इस फैसले से 'राजनीतिक प्रतिशोध में लगी' के और सरकार हाथ मजबूत होंगे।

इन दलों ने एक साझा बयान में यह उम्मीद भी जताई कि शीर्ष अदालत का यह निर्णय बहुत कम समय के लिए होगा और आगे संवैधानिक प्रावधानों की जीत होगी। इस साझा बयान पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), द्रविड् मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक), इंडियन युनियन लीग मुस्लिम मार्क्सवादी (आईयूएमएल), कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), एमडीएमके. राष्टीय जनता दल. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) और शिवसेना समेत 17 दलों के नेताओं और निर्दलीय राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने हस्ताक्षर किए हैं।

विपक्षी दलों ने कहा, 'हम उच्चतम न्यायालय के उस हालिया आदेश के होने वाले दुरगामी असर को लेकर

के लिए दिशा निर्देश

मंकीपॉक्स से बचाव

देश में मंकीपॉक्स के बढते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को महामारी से बचने के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' से संबंधित एक सूची जारी की। मंत्रालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक या बार-बार संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो वह भी संक्रमित हो सकता है। संक्रमण से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से दूर रखा जाना चाहिए। किसी अफवाह पर विश्वास न करें। भाषा

गहरी चिंता प्रकट करते हैं जिसमें शीर्ष रहेंगे। फिर भी हम इसका उल्लेख अदालत ने धनशोधन निवारण करने को बाध्य हए हैं कि वित्त कानून, 2002 में किए गए संशोधनों विधेयक के जरिये किए गए संशोधनों की वैधानिकता पर विचार करने वाले को पूरी तरह से बरकरार रखा तथा इसको छानबीन नहीं की कि इनमें से बड़ खंडपीठ के फैसले का इंतजार कुछ संशोधन वित्त विधेयक के जरिये किया जाना चाहिए था।' उन्होंने दावा किया कि इन संशोधनों ने उस सरकार किए गए।' उन्होंने कहा, ' अगर कल उच्चतम न्यायालय वित्त विधेयक के के हाथ को मजबूत किया जो प्रतिशोध की राजनीति में लगी हुई है, जरिये हुए संशोधनों को कानून के लिहाज से गलत ठहरा दे तो पुरी इन संशोधनों का उपयोग करके अपने विरोधियों को शरारतपूर्ण और कवायद बेकार हो जाएगी और न्यायपालिका का समय भी जाया दुर्भावनापूर्ण ढंग से निशाना बना रही होगा।' पीएमएलए संशोधनों को पूर्व है। विपक्षी दलों ने कहा, 'हम इस बात केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे से निराश हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, और सांसद कार्ति पी चिदंबरम और जिसे कानून में जांच-परख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री संतुलन के अभाव को लेकर स्वतंत्र महबुबा मुफ्ती सहित लगभग 250 फैसला देना चाहिए, उसने वस्तुतः याचियों ने न्यायालय में चुनौती दी थी। उन दलीलों को फिर से सामने कर ये सभी कथित धन शोधन को दिया जो इन संशोधनों के समर्थन में लेकर ईडी की कार्यवाही का सामना कार्यपालिका की ओर से रखी गईं थी। कर रहे हैं। कानून के तहत बंगाल के उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी सहित विपक्ष के निवारण अधिनियम (पीएमएलए) आधा दर्जन नेताओं पर भी आरोप के तहत ईडी को मिले अधिकारों का लगाए गए हैं। विपक्षी दलों ने कहा, समर्थन करते हुए गत 27 जुलाई को कहा था कि धारा-19 के तहत 'हम अपने उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं और हमेशा करते गिरफ्तारी का अधिकार मनमानापूर्ण

**APPOINTMENTS** 

रांजाब नैशनल बैंक 🕓 คบกาดb กละเอกลไ bank

एचआर प्रभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075

अधिसूचना

पंजाब नैशनल बैंक में, अनुबंध के आधार पर, 06 विशेषज्ञता प्राप्त

कार्यपालक पदों की भर्ती के संबंध में समाचार—पत्र बिज़नेस स्टैण्डर्ड

(दिनांक 17.12.2021) में जारी किए गए विज्ञापन के संदर्भ में, मुख्य

जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक

योग्यता को संशोधित किया गया है । योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से

आग्रह है कि जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.pnbindia.in->

Recruitments पर जाएँ क्यूंकि मुख्य जोखिम अधिकारी के पद के

महाप्रबंधक (एचआरडी)

लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26.08.2022 है।

दिनांक 03.08.2022



E-mail: investors@sandhar.in Website: www.sandhargroup.com



# FOSTERING INNOVATION AND GROWTH

#### EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2022

(₹ in lakhs, except per equity share data)

			Consolidated		Standalone			
SI. No.		Quarter ended		Year ended	-	Quarter ended		
NO.		30 June 2022	30 June 2021	31 March 2022	30 June 2022	30 June 2021	31 March 2022	
		Un-audited	<b>Un-audited</b>	Audited	Un-audited	<b>Un-audited</b>	Audited	
1	Revenue from Operations	67,509.79	41,007.32	2,32,370.23	57,053.23	31,767.40	1,94,101.58	
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional item and share of loss in joint ventures)	2,159.86	495.43	9,526.69	2,165.94	134.73	8,742.03	
3	Net Profit for the period (before tax after exceptional item and share of loss in joint ventures)	1,876.01	176.80	8,144.24	2,165.94	134.73	8,631.67	
4	Net Profit for the period (after tax, exceptional item and share of loss in joint ventures)	1,271.39	211.21	5,592.93	1,579.92	98.93	6,142.68	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	1,233.87	161.55	6,082.78	1,513.96	(2.09)	5,922.25	
6	Equity Share Capital	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	
7	Total Reserves	-	-	79,875.08	-	-	79,975.31	
8	Earnings Per Share (Face value of ₹ 10/- per share) (not annualised for quarter)							
	1. Basic:	2.11	0.35	9.29	2.62	0.16	10.21	
	2. Diluted:	2.11	0.35	9.29	2.62	0.16	10.21	

Note

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30 June 2022 of Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results are available on the websites of the BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and or Company's website at www.sandhargroup.com

> For Sandhar Technologies Limited JAYANT DAVAR **Co-Chairman and Managing Direct**

Place: Gurugram (Haryana) ated: 03 August 2022